

Part A Introduction

Program: **Year: B.COM. 2nd YEAR** **Session: 2026-27**

Course Code

Course Title

ADVANCE FINANCIAL ACCOUNTING

Course Type

DSE-1 --(A)

Pre-requisite (if any)

NO

Course Learning outcomes (CLO)

After the successful completion of the course, the student shall be able to:-

- gain the conceptual clarity about Partnership accounting.
- understand the concept of a partnership firm and prepare accounts for dissolution of a partnership firm.
- learn the accounting process of Hire Purchase and Instalment Payment Systems.
- learn the basic concept of accounting with Single entry system and incomplete Records.
- acquire the basic concept of preparing Bank reconciliation statement.
- understand the concept of Consignment, and Joint ventures
- learn the accounting process of rectification of errors.

Expected Job Role / career opportunities

- Accounting & Finance Sector - Chartered Accountant, Financial Analyst / Accountant, Accounts Executive / Manager
- Banking & Insurance Sector - Loan & Credit Officer, Investment Banker, Insurance Analyst / Risk Assessor
- Government & PSU Jobs - Accounts Officer, Treasury Officer, Auditor
- Finance Controller, Business Consultant

Credit Value

4

Part B- Content of the Course

Total No. of Lectures : 60 (Lecture of one hour)

Module	Topics	No. of Hours
I	Study of Bhartiya Traditional accounting methods- Vedic & Mauryan Periods, Gupta to Medieval India, Partnership Accounting System in Ancient India- Shreni, Puga, Nigama Partnership Account – Admission, Retirement and Death: Adjustment of the profit-sharing ratio, Adjustment of Revaluation of Assets and Liabilities, Adjustment for Goodwill, Amount due to retiring Partner, Death of a partner and Joint Life Policy. Activity: Ask students to do research on a real partnership firm (local business or famous firm). Describe what effect it will have, and how the accounting adjustment will apply if a new partner joins the firm or goes through a firm.	12
II	Dissolution of the Partnership Firm:	12

Amisdo

	Accounting of Dissolution of the Partnership Firm Including Insolvency of partners, sale to a limited company and piecemeal distribution. Activity: Assign roles: Partners, Accountant, Creditors etc. Simulate the dissolution process - (i) Sale of assets (ii) Payment to creditors (iii) Distribution of remaining cash. Make it fun yet informative.	
III	Hire Purchase and Installment Payment Systems: Calculation of interest, partial and full repossession, Hire purchase trading (total cash price basis), stock and debtor's system; Concepts of operating and financial lease, Journal Entries and Accounting. Activity: Ask students to collect data from a local shop (e.g., Vehicle, furniture, electronics) that sells on instalment). Prepare a short report comparing: (i) Cash Price vs. Instalment Price (ii) Interest Rate and Duration (iii) Buyer's perspective on advantages/disadvantages.	12
IV	Consignment, Joint Ventures and Rectification of Errors: Consignment: Meaning, Features, Account sales, ledger accounts of consignor and consignee. Joint Ventures: meaning, characteristics and methods of accounting. Rectification of Errors: types of errors, journal entries, suspense account, effect of errors on P&L. Activity: 1. Visit a local business or talk to a shopkeeper who sells goods on consignment basis (e.g., garments, books). Prepare a short report showing how goods are sent and payments are received. 2. Provide a trial balance with intentional mistakes. Ask Students to find and classify errors (Errors of Omission, Compensatory, Principle, etc.)	12
V	Preparation of Accounts from Incomplete Records and Bank Reconciliation Statement: Accounting from Incomplete Records: Salient Features, Limitations and advantages, Ascertainment of Profit or loss, Statement of Affairs, Preparation of Final Account from Incomplete records. Bank Reconciliation Statement: Meaning, causes of difference, preparation of bank reconciliation statement. Activity: Show a sample Pass Book and Cash Book with mismatched balances. Ask students why they differ — leads to reasons for reconciliation.	12
	Note - 70 % numerical questions should be asked	

Part C-Learning Resources

Text Books, Reference Books, Other resources

Suggested Readings:

Textbooks:

- book for 125*
1. जैन पी.के., सोनी एम.एल., उच्चतर लेखांकन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल
 2. Agrawal D.K., Jain M.K., Singhal Govind, Advanced Accounting, Ramesh Book Depot, Jaipur
 3. Shukla S.M., Financial Accounting, Sahitya Bhawan Publication, Agra
 4. Shukla M. C., Advanced Accounts. Vol.-I. S. Chand & Co., New Delhi.
 5. Maheshwari S.N., Financial Accounting. Vikas Publishing House, New Delhi.

Reference Book:

1. Bhattacharyya K. Asish, Essentials of Financial Accounting, PHI Learning Private Limited
2. Pillai R.S.N, Advanced Accounting, S. Chand and Company Pvt. Ltd.

Suggested equivalent online courses:

<https://www.icaai.org/post/sm-foundation-p1-may2025>

<https://resource.cdn.icaai.org/82150bos66211-cp3.pdf>

<https://www.icaai.org/post/sm-foundation-p1-may2026>

<https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/52498/1/BLOCK%205.pdf>

<https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/52497/1/BLOCK%204.pdf>

<https://www.icsi.edu/media/webmodules/FUNDAMENTALS%20OF%20ACCOUNTING%20AND%20AUDITING.pdf>

भाग-द : मूल्यांकन एवं आकलन

अधिकतम अंक -

100

सतत समग्र मूल्यांकन (CCE)


कुल अंक

30

विश्वविद्यालय परीक्षा

कुल अंक -

70




(PROF. PAVAN MISHRA)

Chairman

Central Board of Studies(Commerce)

Department of Higher Education Govt. of M.P.



भाग अ - परिचय

कार्यक्रम -	कक्षा : बीकॉम द्वितीय वर्ष	Session: 2026-27
पाठ्यक्रम का कोड		
पाठ्यक्रम का शीर्षक	उच्चतर वित्तीय लेखांकन (ADVANCE FINANCIAL ACCOUNTING)	
पाठ्यक्रम का प्रकार	DSE-1 (A)	
पूर्वापेक्षा (यदि कोई हो)	NO	
पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त विद्यार्थी सक्षम होंगे: • साझेदारी लेखांकन के बारे में वैचारिक स्पष्टता प्राप्त करने में । • साझेदारी फर्म की अवधारणा को समझने और साझेदारी फर्म के विघटन के खाते तैयार करने में । • किराया क्रय और किश्त भुगतान प्रणालियों की लेखांकन प्रक्रिया सीखने में । • एकल प्रविष्टि प्रणाली और अपूर्ण अभिलेखों से लेखांकन की मूल अवधारणा प्राप्त करने में । • बैंक समाधान विवरण तैयार करने की मूल अवधारणा समझने में । • प्रेषण और संयुक्त उद्यम की अवधारणा को समझने में । • त्रुटियों के सुधार की लेखांकन प्रक्रिया सीखने में ।	
अपेक्षित रोजगार/ करियर के अवसर	लेखा एवं वित्त क्षेत्र - चार्टर्ड अकाउंटेंट, वित्तीय विश्लेषक, लेखाकार, लेखा कार्यकारी, प्रबंधक बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र - ऋण एवं साख अधिकारी, निवेश बैंकर, बीमा विश्लेषक, जोखिम निर्धारक सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियाँ - लेखा अधिकारी, कोषागार अधिकारी, लेखा परीक्षक वित्त नियंत्रक, व्यवसाय सलाहकार	
क्रेडिट मान	4	

भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु

व्याख्यानों की कुल संख्या: 60 (एक घंटे का व्याख्यान)

इकाई	विषय	व्याख्या न की संख्या
I	भारतीय पारंपरिक अकाउंटिंग तरीकों का अध्ययन - वैदिक और मौर्य काल, गुप्त काल से मध्यकालीन भारत तक, प्राचीन भारत में पार्टनरशिप अकाउंटिंग पद्धति- श्रेणी, पुगा, निगम साझेदारी खाता - प्रवेश, सेवानिवृत्ति और मृत्यु: लाभ-विभाजन अनुपात का समायोजन, परिसंपत्तियों और देनदारियों के पुनर्मूल्यांकन का समायोजन, ख्याति का समायोजन, सेवानिवृत्त साझेदार को देय राशि, साझेदार की मृत्यु और संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी।	12

Signature

	गतिविधि: विद्यार्थियों को किसी वास्तविक साझेदारी फर्म (स्थानीय व्यवसाय या प्रसिद्ध फर्म) पर शोध करने को कहें। वर्णन करें कि यदि कोई नया साझेदार फर्म में शामिल हो जाए या कोई फर्म से चला जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा, और लेखांकन समायोजन कैसे लागू होंगे।	
II	साझेदारी फर्म का विघटन साझेदारी फर्म के विघटन का लेखा, जिसमें साझेदारों का दिवालिया होना, लिमिटेड कंपनी को बिक्री और भागशः वितरण शामिल है। गतिविधि: भूमिकाएँ निर्धारित करें: साझेदार, लेखापाल, लेनदार आदि। विघटन प्रक्रिया का अनुकरण करें - (i) परिसंपत्तियों की बिक्री, (ii) लेनदारों को भुगतान, (iii) शेष नकदी का वितरण। इसे मज़ेदार और जानकारी पूर्ण बनाएँ।	12
III	किराया क्रय और किशत भुगतान प्रणालियाँ ब्याज की गणना, आंशिक और पूर्ण पुनर्ग्रहण, किराया क्रय व्यापार (कुल नकद मूल्य के आधार पर), स्टॉक और देनदार प्रणाली; परिचालन और वित्तीय पट्टे की अवधारणाएँ, जर्नल प्रविष्टियाँ और लेखांकन। गतिविधि: छात्रों से स्थानीय दुकान (जैसे, वाहन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स) से समंक एकत्र करने के लिए कहें जो किशतों पर बेचती हो। तुलना करते हुए एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करें: (i) नकद मूल्य बनाम किशत मूल्य (ii) ब्याज दर और अवधि (iii) लाभ/हानि पर खरीदार का दृष्टिकोण।	12
IV	प्रेषण, संयुक्त उद्यम और त्रुटियों का सुधार प्रेषण: अर्थ, विशेषताएँ, विक्रय विवरण, प्रेषक और प्रेषणी के लेखे। संयुक्त उद्यम: अर्थ, विशेषताएँ और लेखांकन विधियाँ। त्रुटियों का सुधार: त्रुटियों के प्रकार, जर्नल प्रविष्टियाँ, उचित खाता, लाभ-हानि पर त्रुटियों का प्रभाव। गतिविधि: 1. किसी स्थानीय व्यवसाय पर जाएँ या किसी ऐसे दुकानदार से बात करें जो सामान (जैसे, कपड़े, किताबें) प्रेषण आधार पर बेचता हो। एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करें जिसमें बताया गया हो कि सामान कैसे भेजा जाता है और भुगतान कैसे प्राप्त होता है। 2. जानबूझकर की गई गलतियों के साथ एक तलपट प्रदान करें। छात्रों से अशुद्धियाँ (चूक की अशुद्धियाँ, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ आदि) खोजने और वर्गीकृत करने के लिए कहें।	12
V	अपूर्ण अभिलेखों से खाते तैयार करना और बैंक समाधान विवरण अपूर्ण अभिलेखों से लेखांकन: मुख्य विशेषताएँ, सीमाएँ और महत्व, लाभ या हानि का निर्धारण, स्थिति विवरण, अपूर्ण अभिलेखों से अंतिम खाते तैयार करना। बैंक समाधान विवरण: अर्थ, अंतर के कारण, बैंक समाधान विवरण तैयार करना। गतिविधि: बेमेल शेष वाली नमूना पासबुक और कैशबुक दिखाएँ। छात्रों से पूछें कि उनमें अंतर क्यों है - इससे समाधान के कारण पता चलेंगे।	12
	70% संख्यात्मक प्रश्न पूछे जाने चाहिए	

Amisdo

भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

पाठ्य पुस्तकें :

1. जैन पी.के., सोनी एम.एल., उच्चतर लेखांकन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल
2. Agrawal D.K., Jain M.K., Singhal Govind, Ramesh Book Depot, Jaipur
3. Shukla S.M., Financial Accounting, Sahitya Bhawan Publication, Agra
4. Shukla M. C., Advanced Accounts. Vol.-I. S. Chand & Co., New Delhi.
5. Maheshwari S.N..Financial Accounting. Vikas Publishing House, New Delhi.

संदर्भ पुस्तकें:

1. Bhattacharyya K. Asish, Essentials of Financial Accounting, PHI Learning Private Limited
2. Pillai R.S.N, Advanced Accounting, S.Chand and Copmany Pvt. Ltd.

Suggested equivalent online courses:

<https://www.icaai.org/post/sm-foundation-p1-may2025>

<https://resource.cdn.icaai.org/82150bos66211-cp3.pdf>

<https://www.icaai.org/post/sm-foundation-p1-may2026>

<https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/52498/1/BLOCK%205.pdf>

<https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/52497/1/BLOCK%204.pdf>

<https://www.icsi.edu/media/webmodules/FUNDAMENTALS%20OF%20ACCOUNTING%20AND%20AUDI>
NG.pdf

भाग-द : मूल्यांकन एवं आकलन

अधिकतम अंक -		100
सतत समय मूल्यांकन (CCE)	कुल अंक	30
विश्वविद्यालय परीक्षा	कुल अंक -	70



(PROF.PAVAN MISHRA)

Chairman

Central Board of Studies(Commerce)

Department of Higher Education Govt. of M.P.

